



# उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 31.08.2021  
थाना आसीवन जनपद उन्नाव ।

## गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा गैर इरादत हत्या के तीन आरोपियों को घटना में प्रयुक्त तीन अदद बांस के डंडे बरामद कर गिरफ्तार किया गया ।

**संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 29.08.2021 को रात्रि करीब 21:30 बजे अनीत पुत्र श्रीकृष्ण उम्र करीब 22 वर्ष व आकाश पुत्र मनीराम उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम सकतपुर थाना आसीवन जनपद उन्नाव सफीपुर से अपने घर ग्राम सकतपुर जा रहे थे। रास्ते में ग्राम कूरेमऊ थाना सफीपुर जनपद उन्नाव में धर्मेन्द्र पुत्र रोशनलाल उम्र करीब 28 वर्ष जाति रैदास, सुनील पुत्र रोशनलाल उम्र करीब 31 वर्ष जाति रैदास, शिवमंगल लोध पुत्र राजाराम लोध निवासीगण



ग्राम कूरेमऊ थाना सफीपुर व रूपेन्द्र गौड़ पुत्र नवल गौड़ उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम अरियर कलां थाना आसीवन, ने सड़क पर शराब के नशे में अनीत व आकाश उपरोक्त को रोककर उनके साथ मारपीट की। तत्पश्चात अनीत ने श्यामू पुत्र मेवालाल गौतम उम्र करीब 24 वर्ष व गोविन्द पुत्र गोकुल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सकतपुर थाना आसीवन को मौके पर बुलाया। बढ़ते विवाद को देखते हुए अनीत व आकाश उपरोक्त वहाँ से भाग गए तथा मारपीट में श्यामू उपरोक्त गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर आसीवन पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर घायल श्यामू उपरोक्त को CHC मियागंज भर्ती करवाया गया जहाँ से बेहतर उपचार हेतु चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया। दिनांक 30.08.2021 को घायल की इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसीवन में मु0अ0सं0 178/21 धारा 323/504/304 भा0दं0वि0 पंजीकृत कर आज दिनांक 31.08.2021 को अभियुक्तगण 1.धर्मेन्द्र पुत्र रोशन लाल रैदास निवासी ग्राम कूरेमऊ थाना आसीवन जनपद उन्नाव 2.रूपेन्द्र पुत्र नवल किशोर गौड़ निवासी ग्राम अरेरकला थाना आसीवन जनपद उन्नाव 3.शिवमंगल पुत्र रज्जन निवासी लोचनखेड़ा मजरा कूरेमऊ थाना आसीवन जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया ।

### **नाम पता अभियुक्त-**

- 1.धर्मेन्द्र पुत्र रोशन लाल रैदास निवासी ग्राम कूरेमऊ थाना आसीवन जनपद उन्नाव
- 2.रूपेन्द्र पुत्र नवल किशोर गौड़ निवासी ग्राम अरेरकला थाना आसीवन जनपद उन्नाव
- 3.शिवमंगल पुत्र रज्जन निवासी लोचनखेड़ा मजरा कूरेमऊ थाना आसीवन जनपद उन्नाव ।

**बरामदगी का विवरण:-**

घटना में प्रयुक्त 02 अदद बांस के डंडे

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 प्रवीण पुंज
2. हे0का0 सहीम खां
3. का0 दीपक यादव
4. का0 अक्षय यादव
5. का0 अभिमन्यु



# उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 31.08.2021  
थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।

## हत्या के पांच आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा हत्या के पांच आरोपियों को गिरफ्तार आलाकत्ल दो अदद उण्डे बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 29.08.2021 को जमीनी विवाद को लेकर थाना हसनगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम अमोइया में दो पक्षों के मध्य मारपीट हो गई थी, जिसमें घायल रमाकान्त अवस्थी की दौराने इलाज मृत्यु हो गई। परिजनों की तहरीर पर थाना हसनगंज में मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 261/2021 धारा 143/147/148/302/307/323/504/506 भादवि0 बनाम चन्दन सिंह पुत्र देशराज सिंह आदि 17 नफर पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 31.08.2021 को



1-चन्दन सिंह पुत्र देशराज सिंह 2- देशराज सिंह पुत्र छेदू सिंह 3-प्रभात सिंह पुत्र राजकुमार सिंह 4-राधवेन्द्र सिंह पुत्र समशेर सिंह 5-राजेन्द्र सिंह पुत्र समशेर सिंह समस्त निवासीगण अमोईया थाना हसनगंज जनपद उन्नाव को आलाकत्ल दो अदद उंडे बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

### **नाम पता अभियुक्त-**

- 1- चन्दन सिंह पुत्र देशराज सिंह
- 2- देशराज सिंह पुत्र छेदू सिंह
- 3- प्रभात सिंह पुत्र राजकुमार सिंह
- 4- राधवेन्द्र सिंह पुत्र समशेर सिंह
- 5- राजेन्द्र सिंह पुत्र समशेर सिंह समस्त निवासीगण अमोईया थाना हसनगंज जनपद उन्नाव

### **बरामदगी का विवरण:-**

आलाकत्ल 02 अदद बांस के उंडे

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री अजय राज वर्मा थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ।
- 2- उ०नि० श्री वृजेश कुमार यादव थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ।
- 3- उ०नि० श्री राजेश सिंह थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ।
- 4- हे०का० सत्येन्द्र सिंह थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 5- का० लवजीत सिंह थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 6- का० दीपक कुमार थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 7- का० राजेश कुमार थाना हसनगंज उन्नाव ।



# उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 31.08.2021

थाना पुरवा जनपद उन्नाव ।

## चोरी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा चोरी के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 29.02.2020 की रात्रि में कुलदीप अपने साथी सरफराज के साथ मिलकर ग्राम चमियानी स्थित वादी के मोबिल की दुकान में ताला तोड़कर टच मोबाइल व कीपैड मोबिल आदि चोरी कर लिया था। दिनांक 02.03.2020 को वादी श्री अजीत कुमार पुत्र श्री राजाराम नि० शिवदीनखेड़ा म० मगरायर थाना बीघापुर जनपद उन्नाव की लिखित तहरीर के आधार पर थाना पुरवा पर मु०अ०सं० 72/2020 धारा 380/457 भा०दं०वि० पंजीकृत हुआ था। सरफराज पुत्र मेहराज नि० जिन्दवाड़ी कस्बा व थाना पुरवा जनपद उन्नाव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।



आज दिनांक 31.08.2021 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त कुलदीप पुत्र शत्रोहन नि० विशुनखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव को उ०नि० थान सिंह मय हमराह फोर्स द्वार विशुनखेड़ा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

### नाम पता अभियुक्त-

1- कुलदीप पुत्र शत्रोहन नि० विशुनखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री थान सिंह
2. का० विनित कुमार



# उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट, दिनांक 31.08.2021  
थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव ।

## चोरी की स्कूटी सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान चोरी की स्कूटी के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

**संक्षिप्त विवरण:-** आज दिनांक 31.08.2021 को हे0का0 अनिल कुमार मय हमराह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान बन्दीपुरवा तिराहे से अभियुक्त 1. मोनू सिंह सेंगर उर्फ पूता पुत्र अमर सिंह नि0 म0नं0 377 वार्ड 72 बाबा की बगिया दबौली वेस्ट थाना गोविन्दनगर जनपद कानपुर नगर 2. मो0 दानिश उर्फ अल्बत पुत्र महमूद गजनवी नि0 पूरा बहादुर थाना कोतवाली देहात जनद हरदोई हाल पता आजाद नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव को एक अदद चोरी की स्कूटी यूपी 32 एफडी 6662 बरामद कर गिरफ्तार किया गया, स्कूटी की चोरी के संबन्ध में जनपद कानपुर नगर के थाना



कर्नलगंज में मु0अ0सं0 144/21 धारा 379 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0 263/21 धारा 41 सीआरपीसी व 411 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया।

### **नाम पता अभियुक्त-**

1. मोनू सिंह सेंगर उर्फ पूता पुत्र अमर सिंह नि0 म0नं0 377 वार्ड 72 बाबा की बगिया दबौली वेस्ट थाना गोविन्दनगर जनपद कानपुर नगर
2. मो0 दानिश उर्फ अल्बत पुत्र महमूद गजनवी नि0 पूरा बहादुर थाना कोतवाली देहात जनद हरदोई हाल पता आजाद नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव

### **बरामदगी का विवरण:-**

1. एक अदद चोरी की स्कूटी UP 32 FD6662

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. हे0का0 अनिल कुमार
2. का0 रामबरन चन्देल

